



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

RATNESH KUMAR
95 SHIVGANJ PALI ROAD
UTSAV BHAWAN GALI
821305
INDIA

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - R/RD(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	24082020
पैन नंबर / PAN No.	AVSPK1185B
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35570300006369
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2408204552
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	059231072
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35570400000034
शाखा का नाम/Branch Name	DEHRI ONSONE

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
230000	24-08-2020	5.10	12 Months 0 Days	24-08-2021	241956

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1% कम. ii). 1 करोड़ से अधिक की भी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की भी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause : i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

pledge Arg. RWD Sasaram-2
 TERM DEPOSIT RECEIPT
 ग्राहक सं. क्र. : 059231072

Customer Ref. No.
 जारी तारीख 24/02/2015
 Issued Date
 नाम का 23/05/2023
 Due Date
 जन्म तारीख (यदि नावालिग)
 D.O.B. if Minor
 खाता क्र. 355703/2691
 A/c No.

आवधिक जमा राशि के RWD योजना अनुसार
 As Term Deposit Under Scheme

रसीद क्रमांक Receipt No.	मूल्य तारीख Value Date	देय तारीख Due Date	अवधि Period	ब्याज दर Rate of Interest	राशि ₹ Amount ₹
TDR/2011/LL 317722	24/02/15	23/5/23	98 months 29 Days	8.50 %	100,000/-

परिचालनीय अनुदेश, यदि है
 Operational Instructions, if Any

लिएन नोट करने की ता.
 Lien Noted On
 लिएन रद्द करने की ता.
 Lien Cancelled On

नामिती रजिस्ट्रेशन क्र.
 Nominee's Reg. No.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा For BANK OF BARODA
 वरिष्ठ प्रबंधक Senior Manager
 प्रबंधक Manager
 हस्ता. क्र. SIG. NO.

अहस्तान्तरणीय
 NON-TRANSFERABLE
 शर्तें पिछले पृष्ठ पर देखें SEE CONDITIONS OVER LEAF

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

ATNESH KUMAR 95 SHIVGANJ PALI ROAD UTSAV BHAWAN GALI 821305 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 35570300005628
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR1709195437
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 059231072
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c
		शाखा का नाम/Branch Name DEHRI ONSONE
योजना / Scheme नामांकन / Nomination नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. परिचालन पद्धति / Mode of Operation लियन चिह्नित / Lien Marked	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES) Y 17092019 AVSPK1185B SELF N	संयुक्त धारक / Joint Holder (s) अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)



जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याज दर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
60000	17-09-2019	6.45	12 Months 0 Days	17-09-2020	63964

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज़ : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज़ : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---